

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23—मई 29, 2015 (ज्येष्ठ 2, 1937)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23—MAY 29, 2015 (JYAISTHA 2, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अप्रैल 2015

सं. डीपीपर्स II/2015/96/3/20/2012—श्री शशि कांत, सहायक लोक अभियोजक, के.अ.ब्यूरो, एसीबी, भुवनेश्वर ने अपने तकनीकी त्यागपत्र पर दिनांक 10.04.2015 के अपराह्न से सहायक लोक अभियोजक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी. पी. सिंह

प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मई 2015

सं० ई-16013/डीजी-अ०रं०/2013/कार्मिक-2/655—अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर, श्री अरविन्द रंजन, भा०पु०से० (केएल:1977) द्वारा दिनांक 30/04/2015 (अपराह्न) से महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

मुकेश साहनी

अवर सचिव (भा.पु.से. III)

सं० ई.16013/एसएस-डीजी/2015/कार्मिक.2/656—राष्ट्रपति, श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.पु.से. (प.बं:1980) को दिनांक 01.05.2015 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली में महानिदेशक पद पर एच०ए०जी वेतनमान रु० 75,500—80,000/— में नियुक्त करते हैं।

मुकेश साहनी
अवर सचिव (भा.पु.से. III)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2015

संख्या— ओ०दो. 3775/08—कार्मिक (चि०अधि०)—प्रतिनियुक्ति की विस्तारित अवधि के पूर्ण होने के फलस्वरूप डॉ. (श्रीमति) मंजू मद्दाली, चिकित्सा अधिकारी (इरला-7699), की सेवाएं दिनांक 08/08/2014 (पूर्वा०) से उनके मूल विभाग अर्थात् नगर निगम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, राईटरस बिल्डिंग, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के अधिकार में प्रतिस्थापित की जाती है।

तदनुसार डा० (श्रीमति) मंजू मद्दाली, चिकित्सा अधिकारी (इरला-7699) को दिनांक 08/08/2014 (पूर्वा०) से के०रि०पु०बल से कागजी नफरी पर इस निर्देश के साथ कार्यमुक्त किया गया है कि वह प्रत्यावर्तन के साथ दिनांक 05/08/2014 से 03/10/2014 तक 60 दिन अर्जित अवकाश एवं अनुमत्य कार्यग्रहण अवधि का उपभोग करने के पश्चात् अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करेंगी।

एम० सी० पंवार
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 29 अप्रैल 2015

संख्या : ओ.दो-3685/2015—कार्मिक—डी.ए.-1—भारत सरकार ने श्री रजनीश कुमार राय, भा०पु०से० (जी०जे० : 92) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में लेटरल शिफ्ट आधार पर रु० 37,400—67,000/— के वेतन बैंड (पी०बी०-4) तथा ग्रेड वेतन रु० 10,000/— में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 07/10/2019 की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के०रि०पु०बल का कार्यभार दिनांक 29/04/2015 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

एम० सी० पंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—1, उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद, दिनांक 6 मई 2015

सं. Admn.II/Gr.I/7-18/Notification-AAO/Vol.III/5860—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने निम्नलिखित एस० ए० एस० (सिविल-लेखा) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी (समूह -ख राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया है।

क्रमांक	व्यक्तिगत संख्या बी./	नाम (सर्वश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2736	कृपाल सिंह	10.02.2015
2	2729	आलोक जैन	10.02.2015
3	1674	राघवेन्द्र सिंह	10.02.2015
4	3016	राम किशुन	31.03.2015

अरविन्द श्रीवास्तव
उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम-695001, दिनांक 2015

क्रमांक	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती बीना एस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.04.2015 (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती श्रीकुमारी अम्मा बी	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.04.2015 (अधिवर्षिता)
3.	श्रीमती सीतालक्ष्मी अम्माल जी	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.04.2015 (अधिवर्षिता)

ह./— अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400085, दिनांक 30 अप्रैल 2015

संदर्भ: पीडी/7(10)/2015-भर्ती-IV/डीएस/4561—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित विशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारियों उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी ₹ 67000 (वार्षिक वेतन-वृद्धि @ 3%)—79000 को अतिविशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी + वेतनमान ₹ 75500 (वार्षिक वेतन-वृद्धि @ 3%)—80000 में इसी अनुसंधान केंद्र में 10 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	श्री रमेश कौल
2	श्री प्रदीप्त लाहिडी
3	श्री असित बरन मुखर्जी
4	डॉ विवेक मुरलीधर दातार

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ: पीडी/7(11)/2015-भर्ती-IV/ओएस/4562—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजिनियरों ग्रेड 'एच' पे बॅन्ड पीबी-4 ₹37400—67000 + ग्रेड पे ₹10000 को विशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी ₹67000(वार्षिक वेतन-वृद्धि @ 3%)—79000 वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 10 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1	श्री राजेंद्र कुमार राजावत
2	श्री रणजित कुमार
3	श्री मनोजित् बंदयोपाध्याय
4	डा. (श्रीमती) साधना मोहन
5	डा. दिनेश श्रीवास्तव

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
6	डा. विवेकानंद केन
7	डा. प्रदीप कुमार पूजारी
8	श्री अरविन्द भौमिक
9	डा. हरिदास पाल
10	डा. प्रकाश दत्तात्रय नाईक
11	श्री श्रीनिवास पुट्टगुन्टा
12	डा. प्रभाकर वि. वर्दे
13	श्री बरून चटर्जी
14	डा. प्रदिपकुमार के.एस.
15	श्री सुरिन्दर कुमार कौल

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 1 मई 2015

संदर्भ : पीडी/7(19)/2014/भर्ती-IV/(एसओ/एफ)/4648—राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के डॉ. अमित दास, वैज्ञानिक अधिकारी / इंजिनियर ग्रेड 'ई' पे बॅन्ड पीबी - 3 ₹ 15600 - 39100 + ग्रेड पे ₹ 7600 को वैज्ञानिक अधिकारी / इंजिनियर ग्रेड 'एफ' के पद पर पे बॅन्ड पीबी - 4 ₹ 37400 - 67000 + ग्रेड पे ₹ 8700 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई, 2014 के पूर्वाहन से, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु, नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ: पीडी/9(1)/2014-भर्ती-IV/4656—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम 3 से 5 में दर्शाये गये पद, वेतनमान तथा नियुक्ति तिथि में, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति पद	वेतनमान (₹)	नियुक्ति तिथि
1.	डॉ. पी. दीपिका	वैज्ञानिक अधिकारी - डी	15600-39100+6600 (ग्रेड पे)	30.07.2014 (पूर्वाहन)
2.	डॉ. गायत्री विशाल सवानी	वैज्ञानिक अधिकारी - डी	15600-39100+6600 (ग्रेड पे)+एनपीए,	05.02.2015 (पूर्वाहन)

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-85, दिनांक 5 मई 2015

संदर्भ:पीडी/4(3)/2013-भर्ती-III/2015/4715—अध्यक्ष, पी. एवं सी.डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती मीरा प्रविण सावंत, सहायक लेखा अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को दिनांक 31.03.2015 (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक ₹ 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन ₹ 5400/- में एन.आर.बी., भापअ केंद्र, तारापूर में लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.

सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु उर्जा विभाग

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 5 मई 2015

सं. आरआरकेट/प्रशा/2015/भ-805/453—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी: 4, ₹ 37,400—67,000/- + ग्रेड वेतन ₹ 8,900/-) को दिनांक 10-03-2015 (पूर्वाहन) से वैज्ञानिक अधिकारी/एच (पीबी: 4, ₹ 37,400—67,000/- + ग्रेड वेतन ₹ 10,000/-) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	सं.सं.सं.	नाम	प्रभाग
1	325	श्री शेषनाथ सिंह	पीएसआईएडी
2	329	श्री आर. श्रीधर	यूएचवीटीएस
3	557	श्री राजेश कुमार साहू	आईओएपीडीडी
4	762	डॉ. जुजर अली चकेरा	एलपीडी
5	817	श्री यशपाल सिंह	पीएसआईएडी
6	933	डॉ. अशवनी कुमार करनाल	एलएमडीडीडी
7	935	श्री शैलेन्द्र मोहन जलाली	सीएंडएसडी

बी.के. जेना

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956, और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 6 मई 2015

सं०: 560(5)/1083—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई हैं :-

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	केसीएन एग्रीआयल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2010PTC042493	C38484796
2	सफायरग्रीन कांसट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058571	C38780227
3	डायमण्डब्लू बुल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058313	C39262092
4	रिथी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड	U92199UP2006PTC031756	C39753108
5	परफेक्ट कैरियर कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U80211UP2002PTC026483	C39909916
6	एस एम प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2012PTC051156	C40165664
7	टनुराज रिफैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	U29300UP2005PTC029493	C40596165
8	गोल्डन रिक्ल्स प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2012PTC049979	C40782328

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
9	त्रिवेणी ईलर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050578	C40792715
10	डिग एण्ड ड्रिल कान्टैक्टिंग एण्ड सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC051277	C40884124
11	श्री दाउजी कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U32300UP2007PTC033310	C41133588
12	रिलाइबल सुरक्षा एण्ड सपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2009PTC036967	C41399072
13	केयर इलेक्ट्रो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2009PTC036643	C41450255
14	जेएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033818	C41459132
15	रिड्न्फोर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037427	C41542259
16	इनिगमा साफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046637	C41621954
17	डीएन ड्रवेल सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2014PTC063438	C41629700
18	स्वीटड्रीम्स एगोटेक एण्ड लैंड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड	U93000UP2010PLC040441	C41697202
19	ब्राइटमून सेल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2010PTC040425	C41723230
20	लुब्रीजूम पेट्रोलियम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U23203UP2013PTC056614	C41719048
21	विनलाजिक एल टी सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2009PTC036967	C41782558
22	नटस टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2009PTC036643	C41850421
23	वीनस मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033818	C41916750
24	शुभांशु प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037427	C41973371
25	एपिकल इन्फ्राकंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046637	C42007625
26	वेद बिजनेस एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2014PTC063438	C42025718
27	स्टारलाइन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2010PLC040441	C42060244
28	एबी एग्रोरिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2010PTC040425	C42081042
29	सीएसी आरचीटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U23203UP2013PTC056614	C42114934
30	बीएसके इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2009PTC036967	C42116400
31	ग्लोरिअस ईवेंट्स एण्ड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2009PTC036643	C42120386
32	कीसा इस्टेट सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033818	C42149849
33	एल्केमिया टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037427	C42146902
34	सेफरग्रीन बुल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046637	C42178970
35	डायमण्डब्लू मेगाबिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2014PTC063438	C42194407
36	नागेश्वर इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2010PLC040441	C42205047
37	यूनिर्कान लिक्विस प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2010PTC040425	C42226670
38	पैनएशिया हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U23203UP2013PTC056614	C42304634
39	शिराज ए खास हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2009PTC036967	C42375147
40	जेएनके एयरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2009PTC036643	C42477984
41	एल्पाइन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033818	C42498113
42	पीएसएम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037427	C42498287
43	बी पाजिटिव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046637	C42536060

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
44	रियल भूमि इण्डिया लिमिटेड	U63040UP2014PTC063438	C42596098
45	आरम्भ हाउसिंग इंफ्रास्ट्रेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC053719	C42661215
46	आइडियल मेडीकेयर एण्ड डायग्नोस्टिक्स	U85191UP2013PTC055548	C42665125
47	श्रीवास्तव सेल्युशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055045	C42674432
48	इन्तहा इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2010PTC040361	C42828095
49	वेलनेस पावर योगा प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC044005	C42892299
50	गोल्डलाइन आई सी टेक्सटाइल्स एण्ड फैशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U18204UP2010PTC042097	C42949800
51	सूर्यस्वास्तिक हाउसिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC054268	C42954495
52	बिज दुनिया इंफोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2011PTC044654	C43017185
53	विद्या होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC047595	C43152875
54	फाइव माइंड टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U80211UP2014PTC062697	C43182740
55	व्हाइट फ़ैदर फैशन प्राइवेट लिमिटेड	U17121UP2006PTC032670	C43187368
56	कालका वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2012PTC053727	C43229996
57	हीरा पन्ना ट्रेडइम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050043	C43245208
58	इंस्टोकथोर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24100UP2014PTC062355	C43248111
59	साइंसटिफिक मेमोरी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC036576	C43547751
60	साइंसटिफिक मेमोरी डेवलपमेंट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2007PTC033959	C43548593
61	युविक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2013PTC060581	C43657162
62	एचआर इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055792	C43684026
63	एक्सबर्ड्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC046256	C43763457
64	एमएल आटो एण्ड डीजल स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	U36999UP1995PTC017526	C43831072

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956, और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 8 मई 2015

सं०: 560(5)/1158—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई हैं :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	शेफर्डग्रीन इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058413	C39217435
2	डायमंडब्लू इन्फ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058452	C39266101
3	शेफर्डग्रीन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058527	C39272059
4	शेफर्डग्रीन रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058429	C39317243
5	डायमंडब्लू इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058408	C39486451
6	वाल्सप्लस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70103UP2013PTC058321	C39593009

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
7	वाल्थूप्लस रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058515	C39601893
8	शेफर्डग्रीन मेगाबिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058589	C39608062
9	स्टारलाइन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058597	C39612072
10	स्टारलाइन इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058532	C39618129
11	डायमंडब्लू बिल्डजोन प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058412	C39627377
12	वाल्थूप्लस बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058414	C39635784
13	स्टारलाइन इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058533	C39636766
14	डायमंडब्लू इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058433	C39742440
15	स्टारलाइन बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058318	C39748744
16	वाल्थूप्लस मेगाबिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058278	C39752498
17	वाल्थूप्लस इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058302	C39747316
18	बरेली सी टी स्कैन्स एण्ड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U85200UP1991PTC012684	C42972026
19	एकिजम मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC052861	C42992610
20	सायमा आउटडोर गुड्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U18204UP2012PTC051392	C43693340
21	बावा एग्रो प्रोडक्स लिमिटेड	U01135UP1993PLC015836	C43933423
22	बजट हालीडेस प्राइवेट लिमिटेड	U63090UP2013PTC055918	C43955756
23	त्रिवेनी पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036837	C44304814
24	टचवुड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC044618	C44432524
25	ग्रेविटन एच आर सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC057900	C44545283
26	निक किछ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2012PTC050621	C44545952
27	बिटूर पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036842	C44582492
28	बुन्देलखण्ड पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036844	C44582567
29	गंगा सरयू पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036845	C44582823
30	गढमुक्तेश्वर पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036840	C44582872
31	मध्यांचल पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036836	C44582922
32	पूर्वांचल पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036827	C44582989
33	संगम पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036841	C44583078
34	सत्यदर्शन पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036843	C44583136
35	शहजहांपुर पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036839	C44583227
36	ताज शिल्प पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036846	C44583300
37	अभ्यारण्य पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036832	C44584084
38	अध्यवसाय पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036834	C44584431
39	अवध पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036830	C44584910

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
40	ब्रज दर्शन पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036829	C44585370
41	ब्रज पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55204UP2009SGC036831	C44585875
42	ज्ञानोदय पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55204UP2009SGC036867	C44586451
43	हस्तिनापुर पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036828	C44587236
44	हिण्डन पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036826	C44587988
45	पांचाल पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036835	C44589661
46	सिद्धार्थ पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036833	C44593861
47	तज विरासत पारीपथ पर्यटन लिमिटेड	U55101UP2009SGC036838	C44594919
48	सर्वशिवा रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055952	C44644904
49	विश्वेश्वरा रियलर्टस प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2009PTC038650	C44684868
50	एडवांसजोन लर्नवे प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC058487	C44720803
51	फ्रेश फार्म फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC053233	C44888857
52	नक्छत्र वीजनटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC043351	C44919173
53	शशी इन्फ्राडेवलर्प्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC046824	C45048246
54	विघ्नेश्वर बेवरेज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2012PTC051647	C45054954
55	हाईटेक डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC052435	C45070992
56	शहनाज इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U65923UP1996PTC019421	C45510187
57	पदमसुख इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U15112UP2007PTC033506	C45529682
58	विनायक इन्फ्रास्ट्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2008PTC035902	C45599982
59	आइडियल मेडिटेक सेल्यूलर प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050484	C45629946
60	टचबुड मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC053610	C45710365
61	ट्रीस एडसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2005PTC030236	C45725504
62	रायल इण्डिया इन्फ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2009PTC037289	C45827532
63	पनेसिया फीड्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC059135	C45968906
64	आर जी फिनस्टाक प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP1996PTC021147	C46084067
65	श्रीश इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033064	C46205944
66	एलीना इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29248UP2013PTC059441	C46227237
67	आकाश इन्फ्राप्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC046961	C46285102
68	यूटिलिटी एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U80901UP2008PTC035084	C46285755
69	सन कान्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2009PTC037321	C46516407
70	केब्रैंडलिट सेल्यूलर प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC056905	C46730040
71	ब्लूसी आरओ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	U41000UP2014PTC062234	C46751129
72	दर्पण ब्लूइंक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U22190UP2009PTC036851	C46761854

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
73	वलेरिया इन्फाडेवलर्प्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC044280	C46792487
74	सैंगर्स बिजनेस प्रोडाइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC053556	C46833901
75	राव कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड	U80301UP2006PTC032039	C46862769
76	श्री हरी इन्फावैचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC052377	C47086079
77	कोडेप टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2014PTC063822	C47105028
78	सियेना मेडिके प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2002PTC026440	C47112057
79	सिस्टम रिवाल्यूशन इन्फाडेवलर्प्स लिमिटेड	U70109UP2011PLC044862	C47177019
80	हार्डविन सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC043909	C47211214
81	फ्रंटलाइन ट्रांसवे प्राइवेट लिमिटेड	U63090UP2012PTC049304	C47224050
82	लोकल पेन प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2011PTC046715	C47231279
83	एम एम राज ट्रेवल्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U34101UP1996PTC020425	C47246293
84	डिगीक्राफ्ट टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC045302	C47250071
85	आदि शक्ति एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2003PTC027441	C47295472
86	अवघ हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2011PTC047884	C47367362
87	मैजिक आउटडोर मीडिया सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC043624	C47388426
88	स्मृति नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड	U85100UP2009PTC036597	C47463849
89	एस ए मशीन प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP2006PTC032593	C47464136
90	कान एक्वा प्राइवेट लिमिटेड	U29253UP2013PTC059396	C47531454
91	सिंगल स्टाप होम्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC050026	C47534516
92	सोनभद्र आटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U34300UP2007PTC033701	C47574421
93	एस के टेक्निकल इंस्टीट्यूट एण्ड टेस्ट ट्रेनिंग सेटर प्राइवेट लिमिटेड	U80211UP2014PTC063371	C47575501
94	प्रभावती एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2013PTC054435	C47656608

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 6 मई 2015

संख्या/No:क.र./प0.बं0./एफटीई/560/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 26 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र० सं०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U52190WB2012PTC183993	डायमंडट्रीम विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
2	U74140WB2010PTC155639	अभ्युदय एडवाइज़र एण्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

क्र० सं०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
3	U52190WB2011PTC162067	उल्टीमो कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
4	U51909WB1997PTC083254	फ्रंटट्रेड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
5	U74140WB1994PTC062427	नरेन किनी डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड
6	U15500WB2011PTC169949	सफायर विनेस प्राइवेट लिमिटेड
7	U74140WB1995PTC068707	स्पनसा कंसल्टेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U52500WB2010PTC152934	सार्थक टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड
9	U23203WB2012PTC186271	एन्डुरंस कोल एंड कोक प्राइवेट लिमिटेड
10	U51109WB2007PTC114322	ईस्ट इंडिया एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
11	U74900WB2012PTC186463	लाइयबल मीडिया एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
12	U31500WB2012PTC181469	एनआरबी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U70109WB2012PTC184132	तनाशका इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
14	U74210WB1994PTC064628	एनडीजी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U52599WB2007PTC112975	एच एम कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
16	U65999WB1999PTC090577	आर्क पावर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U29191WB1996PTC076370	कैलोरि हाऊस प्राइवेट लिमिटेड
18	U25209WB2012PTC186055	ब्लेसिंग पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U45400WB2008PTC126396	औरो प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U70102WB2013PTC193239	सिंटिलेटिंग इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
21	U70102WB2013PTC197479	बेमिशाल रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
22	U70102WB2013PTC190848	पर्ल कॉन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड
23	U51909WB2012PTC184687	नरेश ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
24	U72200WB2012PTC185801	अग्रीएबल टेकनेट प्राइवेट लिमिटेड
25	U27310WB2012PTC185872	अड्माईरेबल आइरोन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड
26	U27310WB1986PTC041221	रानीगंज स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू वे मर्चेडीसर प्राइवेट लिमिटेड

Cin No. U40200WB1987PTC111037 के विषय में

कोलकाता- 700020, दिनांक 6 मई 2015

शुद्धिपत्र

No. ROC/560/Corrig/2015—भारत का राजपत्र संख्या 28 [July14–July20, 2012] भाग 3, खण्ड 1 एस. एल. नं. 465 में न्यू वे मर्चेडीसर प्राइवेट लिमिटेड सीन संख्या U40200WB1987PTC111037 का नाम गलती से स्ट्रक ओफ दिखाया गया है। यह स्ट्रक ओफ के योग्य नहीं है।

बी. महान्ति
कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

सं. 3(161)/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है :-

कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
838	मचड़ो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

सी.एम. कार्ल मार्क्स
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 08 मई, 2015

सं. 3(161)/560(5)/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	1944	औरोजों इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	2757	नीनीका चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	2261	आपल एजुकेथन सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड
4	2639	लंडन मेडिकल आंड जनरल सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड
5	2496	वोकल योगा इंस्टीटूट प्राइवेट लिमिटेड
6	1075	अदिति डाइमंड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सी.एम. कार्ल मार्क्स
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 30th April 2015

No. 44/V. Judges/2014/SCA(Genl.)—In partial modification of Notification of even number dated 27.4.2015 notifying the composition and sitting of the Division Benches of Hon'ble Judges as Vacation Judges during the Summer Vacation of the Supreme Court from Monday, May 18, 2015 to Tuesday, June 30, 2015 (both days inclusive), it is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice R. K. Agrawal has been nominated in the Vacation Bench for the second part of the 2nd slot of Vacation i.e. w.e.f. from 7.6.2015 to 14.6.2015 in place of Hon'ble Mr. Justice Madan B. Lokur so that the Bench may now consist of Hon'ble Mr. Justice R. K. Agrawal and Hon'ble Mr. Justice Amitava Roy.

The rest of the aforesaid Notification dated 27.4.2015 remains unchanged.

RAJ PAL ARORA
Registrar (Admn. Genl.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 27th April 2015

No. DPPERS.I2015/96/3/20/2012.—Shri Shashi Kant, Assistant Public Prosecutor, CBI, ACB, Bhubaneswar has relinquished the charge of the post of Assistant Public Prosecutor with effect from afternoon of 10.04.2015 on his technical resignation.

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 5th May 2015

No.E-16013/DG-AR/2013/Pers.II/655—On attaining the age of superannuation, Shri Arvind Ranjan, IPS (KL : 1977) has relinquished the charge of the post of Director General, Central Industrial Security Force, New Delhi with effect from the afternoon of 30th April, 2015.

MUKESH SAWHNEY
Under Secretary (IPS.III)

No.E-16013/SS-DG//2015/Pers-II/656—The President is pleased to appoint Shri Surender Singh, IPS (WB: 1980) as Director General, Central Industrial Security Force, New Delhi in the HAG pay scale of Rs. 75,500–80,000/- with effect from the forenoon of 01.05.2015.

MUKESH SAWHNEY
Under Secretary (IPS.III)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi, the 5th February 2015

No.O.II-3775/08-Pers(MOs).—Consequent on her completion of extended tenure of deputation, services of Dr. (Mrs.) Manju Maddali, Medical Officer, IRLA-7699 replaced at the disposal of her parent department i.e. Department of Municipal Affairs, Govt. of West Bengal, Writer's Building, Kolkatta (W.B.) with effect from 08/08/2014 (FN).

2. Accordingly, Dr. (Mrs.) Manju Maddali, Medical Officer, IRLA-7699 has been relieved from CRPF on paper strength w.e.f. 08/08/2014(FN) with direction to report at her parent department after availing 60 days Earned Leave sanctioned from 05/08/2014 to 03/10/2014 in conjunction with repatriation and admissible joining time.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 29th April 2015

No. O.II-3685/2015-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Rajnish Kumar Rai, IPS (GJ : 92) as Inspector General (IG) in CRPF on lateral shift basis in the Pay Band-4 (Rs. 37,400–67,000/-) with Grade Pay of

Rs. 10,000/- for a period upto 07/10/2019 from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General, CRPF on the forenoon of 29/04/2015.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL

(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I U.P.

Allahabad, the 6th May 2015

No. Admn.II/Gr.I/7-18/Notification AAO/Vol.III/5860—Accountant General (A&E) - I, Uttar Pradesh, Allahabad has appointed the following S.A.S. (Civil Accounts) Examination passed candidates as Assistant Accounts Officer (Group-‘B’ Gazetted) in this office :—

Sl. No.	Personal No. B/	Name S/Shri	Date of Joining
1	2736	Krapal Singh	10.02.2015
2	2729	Alok Jain	10.02.2015
3	1674	Raghavendra Singh	10.02.2015
4	3016	Ram Kishun	31.03.2015

ARVIND SRIVASTAVA
Dy. Accountant General/Admn

OFFICE OF PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)

KERALA

Thiruvananthapuram-695001, the 2015

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. Beena S	Senior Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	30.04.2015 AN (Superannuation)
2.	Smt. Sreekumari Amma B	Assistant Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	30.04.2015 AN (Superannuation)
3.	Smt. Seethalekshmy Ammal G	Assistant Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	30.04.2015 AN (Superannuation)

Sd./- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 30th April 2015

Ref: PD/7(10)/2015-R-IV/(DS)/4561—The President is pleased to appoint the undermentioned Outstanding Scientists Higher Administrative Grade Scale ₹67000 (annual increment @ 3%)—79000 of the Bhabha Atomic Research

Centre as Distinguished Scientist in HAG + Scale ₹75500-(annual increment @ 3%)–80000 in the same Research Centre with effect from the forenoon of March 10, 2015, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer
1	Shri RAMESH KOUL
2	Shri PRADIPTA LAHIRI
3	Shri ASIT BARAN MUKHERJEE
4	Dr VIVEK MURALIDHAR DATAR

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

Ref: PD/7(11)/2015-R-IV/(OS)/4562—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'H' pay band PB-4 ₹37400–67000 + grade pay ₹10000 of the Bhabha Atomic Research Centre as Outstanding Scientist in the Higher Administrative Grade Scale of ₹67000 (annual increment @ 3%)–79000 in the same Research Centre with effect from the forenoon of March 10, 2015, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer
1	Shri RAJENDRA KUMAR RAJAWAT
2	Shri RANAJIT KUMAR
3	Shri MANOJIT BANDYOPADHYAY
4	Dr. (Smt.) SADHANA MOHAN
5	Dr. DINESH SRIVASTAVA
6	Dr. VIVEKANAND KAIN
7	Dr. PRADEEP KUMAR PUJARI
8	Shri ARABINDA BHOWMIK
9	Dr. HARIDAS PAL
10	Dr. PRAKASH DATTATRAY NAIK
11	Shri SREENIVAS PUTTAGUNTA
12	Dr. PRABHAKAR V. VARDE
13	Shri BARUN CHATTERJEE
14	Dr. PRADEEPPKUMAR K.S.
15	Shri SURINDER KUMAR KAUL

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

The 1st May 2015

Ref: PD/7(19)/2014-R-IV/SO(F)/4648—The President is pleased to appoint Dr Amit Das, Scientific Officer/Engineer Grade 'E' pay band PB-3 ₹15600–39100 + grade pay ₹7600 of the Bhabha Atomic Research Centre as

Scientific Officer/Engineer Grade 'F' in the pay band PB-4 ₹37400–67000 + grade pay ₹8700 in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2014, in an officiating capacity, until further orders.

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

Ref. No. PD/9(1)/2014-R-IV/4656—The President is pleased to appoint the undermentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the post in the Pay Band and Grade Pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders :—

Sr. No.	Name	Appointed as	Pay Band (₹)	Date of Appointment
1	2	3	4	5
1.	Dr. P. Deepika	Scientific Officer – D	15600–39100+6600 (GP)	30.07.2014 (FN)
2.	Dr. Gayatri Vishal Savani	Scientific Officer – D	15600–39100+6600 (GP)+NPA	05.02.2015 (FN)

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

Mumbai-85, the 5th May 2015

Ref. PD/4(3)/2013-R-III/2015/4715— Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Meera Pravin Sawant, Assistant Accounts Officer, DAE, Mumbai to officiate as Accounts Officer in the Pay Band-2 of ₹9300–34800 + Grade Pay ₹5400/- in NRB, BARC, Tarapur with effect from the forenoon of 31.03.2015 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 5th May 2015

No. RRCAT/Admin/2015/R-805/453—The President of India is pleased to appoint the following Scientific Officer/G (PB:4, ₹37400–67000 + Grade Pay ₹8900/-) as Scientific Officer/H (PB:4, ₹37400–67000 + Grade Pay ₹10000/-) with effect from 10.03.2015 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :—

Sr. No.	C.C. No.	Name	Division
1	325	Shri Shesh Nath Singh	PSIAD
2	329	Shri R. Sridhar	UHVTS
3	557	Shri Rajesh Kumar Sahu	IOAPDD
4	762	Dr. Juzer Ali Chakera	LPD
5	817	Shri Yashpal Singh	PSIAD
6	933	Dr. Ashwani Kumar Karnal	LMDDD
7	935	Shri Shalinder Mohan Jalali	C&SD

B. K. JENA
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(O/o REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur, the 6th May 2015

No.LC/560(5)/1083—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved.

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	K.C.N AGROOILS PRIVATE LIMITED	U74120UP2010PTC042493	C38484796
2	SAPHIREGREEN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058571	C38780227
3	DIAMONDBLUE BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058313	C39262092
4	RHITI STUDIOS PRIVATE LIMITED	U92199UP2006PTC031756	C39753108
5	PERFECT CAREER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U80211UP2002PTC026483	C39909916
6	SM PROMOTION PRIVATE LIMITED	U93030UP2012PTC051156	C40165664
7	ANURAJ REFRACTORY PRIVATE LIMITED	U29300UP2005PTC029493	C40596165
8	GOLDEN SKILLS PRIVATE LIMITED	U80904UP2012PTC049979	C40782328
9	TRIVENI E-LEARNING PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050578	C40792715
10	Dig and Drill Contracting and Supplies Private Limited	U45400UP2012PTC051277	C40884124
11	SHREE DADU JI COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U32300UP2007PTC033310	C41133588
12	RELIABLE SURAKSHA & SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED	U93000UP2009PTC036967	C41399072
13	CARE ELECTRO SERVICES PRIVATE LIMITED	U31908UP2009PTC036643	C41450255
14	J.S TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033818	C41459132
15	REINFORCE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037427	C41542259
16	ENIGMA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046637	C41621954
17	DN TRAVEL SOLUTION PRIVATE LIMITED	U63040UP2014PTC063438	C41629700
18	SWEETDREAMS AGROTECH AND LAND DEVELOPMENT INDIA LIMITED	U93000UP2010PLC040441	C41697202
19	BRIGHTMOON SALES COMPANY PRIVATE LIMITED	U67190UP2010PTC040425	C41723230
20	LUBRIZOOM PETROLEUM INDIA PRIVATE LIMITED	U23203UP2013PTC056614	C41719048
21	VINLOGIC I.T. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U93000UP2009PTC036967	C41782558
22	NUTS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U31908UP2009PTC036643	C41850421
23	VENUS MINERAL WATER PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033818	C41916750

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
24	SHUBHANSHU PLASTICS PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037427	C41973371
25	APICAL INFRACONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046637	C42007625
26	VEDA BUSINESS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	U63040UP2014PTC063438	C42025718
27	STARLINE INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U93000UP2010PLC040441	C42060244
28	AB AGRORETAIL PRIVATE LIMITED	U67190UP2010PTC040425	C42081042
29	CAC ARCHITECTS PRIVATE LIMITED	U23203UP2013PTC056614	C42114934
30	BSK INFRATECH PRIVATE LIMITED	U93000UP2009PTC036967	C42116400
31	GLORIOUS EVENTS AND PRODUCTION PRIVATE LIMITED	U31908UP2009PTC036643	C42120386
32	KISA ESTATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033818	C42149849
33	Alchemia Technologies Private Limited	U74900UP2009PTC037427	C42146902
34	SAPHIREGREEN BUILDCON PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046637	C42178970
35	DIAMONDBLUE MEGABUILDERS PRIVATE LIMITED	U63040UP2014PTC063438	C42194407
36	NAGESHWAR INFRAZONE PRIVATE LIMITED	U93000UP2010PLC040441	C42205047
37	UNICORN LIQUORS PRIVATE LIMITED	U67190UP2010PTC040425	C42226670
38	PanAsia Hospitality Private Limited	U23203UP2013PTC056614	C42304634
39	SHIRAZ-E-KHAAS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U93000UP2009PTC036967	C42375147
40	JNK AROMATICS PRIVATE LIMITED	U31908UP2009PTC036643	C42477984
41	ALPINE LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033818	C42498113
42	PSM STEELS PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037427	C42498287
43	BEE POSITIVE RETAIL PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046637	C42536060
44	REAL BHUMI INDIA LIMITED	U63040UP2014PTC063438	C42596098
45	ARAMBH HOUSING INFRASTATE PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC053719	C42661215
46	IDEAL MEDICARE AND DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED	U85191UP2013PTC055548	C42665125
47	SHREEVASTAVA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055045	C42674432
48	INTHA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U45400UP2010PTC040361	C42828095
49	WELLNESS POWER YOGA PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC044005	C42892299
50	GOLDLINE I.C. TEXTILE & FASHION COMPANY PRIVATE LIMITED	U18204UP2010PTC042097	C42949800
51	SURYASWASTIK HOUSING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC054268	C42954495

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
52	BIZZ DUNIYA INFOMEDIA PRIVATE LIMITED	U93030UP2011PTC044654	C43017185
53	Vidya Home Developers Private Limited	U70102UP2011PTC047595	C43152875
54	FIVE MIND'S TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U80211UP2014PTC062697	C43182740
55	WHITE FEATHER FASHION PRIVATE LIMITED	U17121UP2006PTC032670	C43187368
56	KALKA WINES PRIVATE LIMITED	U52100UP2012PTC053727	C43229996
57	HEERA PANNA TRADIMPEX PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050043	C43245208
58	INSTOCURE PHARMA PRIVATE LIMITED	U24100UP2014PTC062355	C43248111
59	SCIENTIFIC MEMORY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC036576	C43547751
60	SCIENTIFIC MEMORY DEVELOPMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900UP2007PTC033959	C43548593
61	YUVIK OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U74900UP2013PTC060581	C43657162
62	HR INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055792	C43684026
63	xBirds Systems Private Limited	U72300UP2011PTC046256	C43763457
64	M. L. AUTO AND DIESEL SPARES PRIVATE LIMITED	U36999UP1995PTC017526	C43831072

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 8th May 2015

No. LC/560(5)/1158— Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :—

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	SAPHIREGREEN INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058413	C39217435
2	DIAMONDBLUE INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058452	C39266101
3	SAPHIREGREEN BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058527	C39272059
4	SAPHIREGREEN REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058429	C39317243
5	DIAMONDBLUE INFRAHOME PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058408	C39486451
6	VALUEPLUS BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U70103UP2013PTC058321	C39593009

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
7	VALUEPLUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058515	C39601893
8	SAPHIREGREEN MEGABUILDERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058589	C39608062
9	STARLINE BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058597	C39612072
10	STARLINE INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058532	C39618129
11	DIAMONDBLUE BUILDZONE PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058412	C39627377
12	VALUEPLUS BUILDCON PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058414	C39635784
13	STARLINE INFRABUILD PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058533	C39636766
14	DIAMONDBLUE INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058433	C39742440
15	STARLINE BUILDHOME PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058318	C39748744
16	VALUEPLUS MEGA BUILDERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058278	C39752498
17	VALUEPLUS INFRABUILD PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058302	C39747316
18	BAREILLY C.T. SCANS AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U85200UP1991PTC012684	C42972026
19	EXIM MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC052861	C42992610
20	SAYMA OUTDOOR GOODS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U18204UP2012PTC051392	C43693340
21	BAWA AGRO PRODUCTS LIMITED	U01135UP1993PLC015836	C43933423
22	BUDGET HOLIDAYS PRIVATE LIMITED	U63090UP2013PTC055918	C43955756
23	TRIVENI PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036837	C44304814
24	TOUCHWOOD REALTY PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC044618	C44432524
25	GRAVITON HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC057900	C44545283
26	NICHE KITSCH INDIA PRIVATE LIMITED	U52100UP2012PTC050621	C44545952
27	BITHUR PARIPATH PARYATAN LIMITED.	U55101UP2009SGC036842	C44582492
28	BUNDELKHAND PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036844	C44582567
29	GANGA SARYU PARIPATH PARYATAN LIMITED.	U55101UP2009SGC036845	C44582823
30	GARHMUKTESHWAR PARYATAN LIMITED.	U55101UP2009SGC036840	C44582872
31	MADHYANCHAL PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036836	C44582922
32	PACHIMANCHAL PARIPATH PARYATAN LIMITED.	U55101UP2009SGC036827	C44582989

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
33	SANGAM PARIPATH PARYATAN LIMITED.	U55101UP2009SGC036841	C44583078
34	SATYADARSHAN PARIPATH PARYATAN LIMITED.	U55101UP2009SGC036843	C44583136
35	SHAHJAHANPUR PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036839	C44583227
36	TAJ SHILP PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036846	C44583300
37	ABHYARANYA PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036832	C44584084
38	ADHYAVASAI PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036834	C44584431
39	AWADH PARYATAN LIMITED.	U55101UP2009SGC036830	C44584910
40	BRAJ DARSHAN PARIPATH PARYATAN LIMITED.	U55101UP2009SGC036829	C44585370
41	BRAJ PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55204UP2009SGC036831	C44585875
42	GYANODAYA PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55204UP2009SGC036867	C44586451
43	HASTINAPUR PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036828	C44587236
44	HINDON PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036826	C44587988
45	PAANCHAL PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036835	C44589661
46	SIDDHARTHA PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036833	C44593861
47	TAJ VIRASAT PARIPATH PARYATAN LIMITED	U55101UP2009SGC036838	C44594919
48	SARVASHIVA REALESTATE PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055952	C44644904
49	VISHVESHWARA REALTORS PRIVATE LIMITED	U70102UP2009PTC038650	C44684868
50	ADVANCEZONE LEARNEWAY PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC058487	C44720803
51	FRESH FARM FOODS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC053233	C44888857
52	NAKSHATRA VISIONTECH PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC043351	C44919173
53	SHASHI INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC046824	C45048246
54	VIGHNESWAR BEVERAGE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15122UP2012PTC051647	C45054954
55	HITECH DEVELOPWELL PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC052435	C45070992
56	SHAHNAZ ELECTRICALS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65923UP1996PTC019421	C45510187

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
57	PADAMSUKH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U15112UP2007PTC033506	C45529682
58	VINAYAKA INFRAESTATES PRIVATE LIMITED	U45400UP2008PTC035902	C45599982
59	IDEAL MEDITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050484	C45629946
60	TOUCHWOOD MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC053610	C45710365
61	TREAS ADSYSTEMS PRIVATE LIMITED	U74300UP2005PTC030236	C45725504
62	ROYAL INDIA INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED	U70102UP2009PTC037289	C45827532
63	PANACEA FEEDS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC059135	C45968906
64	R. G. FINSTOCK PRIVATE LIMITED	U67120UP1996PTC021147	C46084067
65	SHRISH INFRABUILD PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033064	C46205944
66	ELINA ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U29248UP2013PTC059441	C46227237
67	AKASH INFRAPLANNERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC046961	C46285102
68	UTILITY EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U80901UP2008PTC035084	C46285755
69	SUN CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U45400UP2009PTC037321	C46516407
70	KBRANDLI IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC056905	C46730040
71	BLUESEA RO SYSTEM PRIVATE LIMITED	U41000UP2014PTC062234	C46751129
72	DARPAN BLUEINK PUBLICATION PRIVATE LIMITED	U22190UP2009PTC036851	C46761854
73	VALERIA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC044280	C46792487
74	SENGAR'S BUSINESS PRODIGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC053556	C46833901
75	RAO COACHING INSTITUTE PRIVATE LIMITED	U80301UP2006PTC032039	C46862769
76	SHRI HARI INFRAVENTURE PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC052377	C47086079
77	CODHEP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900UP2014PTC063822	C47105028
78	SIENA MEDITECH PRIVATE LIMITED	U51397UP2002PTC026440	C47112057
79	SYSTEM REVOLUTIONS INFRADEVELOPERS LIMITED	U70109UP2011PLC044862	C47177019
80	HARDWIN SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC043909	C47211214
81	FRONTLINE TRANSWAYS PRIVATE LIMITED	U63090UP2012PTC049304	C47224050

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
82	LOCAL PEN PRIVATE LIMITED	U52100UP2011PTC046715	C47231279
83	M M RAJ TRAVELS AND TRADING PRIVATE LIMITED	U34101UP1996PTC020425	C47246293
84	DIGICRAFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC045302	C47250071
85	AADI SHAKTI ASSOCIATES Private LIMITED	U45201UP2003PTC027441	C47295472
86	AWADH HERITAGE PRIVATE LIMITED	U55204UP2011PTC047884	C47367362
87	MAGIC OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC043624	C47388426
88	SMRITI NURSING HOME PRIVATE LIMITED	U85100UP2009PTC036597	C47463849
89	S. A. MACHINES PRIVATE LIMITED	U27310UP2006PTC032593	C47464136
90	KAN AQUA PRIVATE LIMITED	U29253UP2013PTC059396	C47531454
91	SINGLE STOP HOMES PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC050026	C47534516
92	SONEBHADRA AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	U34300UP2007PTC033701	C47574421
93	S.K. TECHNICAL INSTITUTE & TEST TRAINING CENTRE PRIVATE LIMITED	U80211UP2014PTC063371	C47575501
94	PRABHAWATI EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U80904UP2013PTC054435	C47656608

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 6th May 2015

No.ROC/WB/FTE/560/2015—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 26 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :—

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U52190WB2012PTC183993	DIAMONDDREAM VINIMAY PRIVATE LIMITED
2	U74140WB2010PTC155639	ABHYUDAY ADVISER AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3	U52190WB2011PTC162067	ULTIMO COMMOTRADE PRIVATE LIMITED
4	U51909WB1997PTC083254	FRONTRADE COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
5	U74140WB1994PTC062427	NAREN KINI DESIGN PRIVATE LIMITED
6	U15500WB2011PTC169949	SAPPHIRE WINES PRIVATE LIMITED
7	U74140WB1995PTC068707	SPANSA CONSULTANTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
8	U52500WB2010PTC152934	SARTHAK TELECOM PRIVATE LIMITED
9	U23203WB2012PTC186271	ENDURANCE COAL & COKE PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	Name of the Company
10	U51109WB2007PTC114322	EAST INDIA EXIM PRIVATE LIMITED
11	U74900WB2012PTC186463	LIABLE MEADIA & PUBLICATION PRIVATE LIMITED
12	U31500WB2012PTC181469	NRB ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
13	U70109WB2012PTC184132	TANASHKA INFRASTRUCTURE (INDIA) PRIVATE LIMITED
14	U74210WB1994PTC064628	NDG CONSULTANTS PVT.LTD.
15	U52599WB2007PTC112975	H M COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
16	U65999WB1999PTC090577	AARKAY POWER & PROJECTS PRIVATE LIMITED
17	U29191WB1996PTC076370	CALORIE HOUSE PVT LTD
18	U25209WB2012PTC186055	BLESSING POLYMERS PRIVATE LIMITED
19	U45400WB2008PTC126396	AURO PROMOTERS PRIVATE LIMITED
20	U70102WB2013PTC193239	SCINTILLATING INFRACON PRIVATE LIMITED
21	U70102WB2013PTC197479	BEMISHAL REALCON PRIVATE LIMITED
22	U70102WB2013PTC190848	PEARL CONCLAVE PRIVATE LIMITED
23	U51909WB2012PTC184687	NARESH TREXIM PRIVATE LIMITED
24	U72200WB2012PTC185801	AGREEABLE TECHNET PRIVATE LIMITED
25	U27310WB2012PTC185872	ADMIRABLE IRON & STEEL PRIVATE LIMITED
26	U27310WB1986PTC041221	RANIGANJ STEEL COMPANY PVT LTD

SAURABH GAUTAM
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Way Merchandiser Private Limited
CIN No. U40200WB1987PTC111037
Kolkata-700020, the 6 May 2015

CORRIGENDUM

No. ROC/560/Corrig/2015 – In the Gazette of the issue No. 28 dated 14th July, 2012-20th July, 2012 Part-III Section-I at Serial No. 306 it has been wrongly notified that M/s. New Way Merchandiser Private Limited CIN No. U40200WB1987PTC111037 be struck off. The Company is an existing Company and active.

B Mohanty
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies
Puducherry-605 011, the 1st April, 2015

No. 3(161) / 2015—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Company have this day been struck off the Register and the said Company is dissolved :—

CIN	Name of the Company
U24299PY1992PTC000838	M/s. MACHDO CHEMICALS PRIVATE LIMITED

C. M. KARL MARX
Registrar of Companies
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Puducherry-605 011, the 8th May, 2015

No. 3(161) / 2015 – Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	U29197PY2006PTC001944	M/s. Aurozon India Private Limited
2.	U65992PY2012PTC002757	M/s. Ninika Chits Private Limited
3.	U80302PY2009PTC002261	M/s. Apple Education Services Private Limited
4.	U85110PY2011PTC002639	M/s. London Medical and General Services Private Limited
5.	U85100PY2010PTC002496	M/s. Vocal Yoga Institute Private Limited
6.	U51398PY1995PTC001075	M/s. Aditi Diamonds Exports Private Limited

C.M. KARL MARX
Registrar of Companies
Puducherry

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in